

संवृद्धि के लिए वित्तपोषण

विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास के लिए

समर्पित एक उत्कृष्ट संस्थान

31-12-2018 को समाप्त अवधि के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त अवधि	
		31-12-2018 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2018 (अलेखापरीक्षित)	31-12-2017 (अलेखापरीक्षित)	31-12-2018 (अलेखापरीक्षित)	31-12-2017 (अलेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	7,252.24	7,286.17	5,631.60	19,110.82	16,784.09
2.	अवधि हेतु निवल लाभ (कर पूर्व और असाधारण मदें)	1,829.91	2,525.45	1,506.02	6,466.20	4,901.18
3.	अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मदों के उपरांत)	1,829.91	2,525.45	1,506.02	6,466.20	4,901.18
4.	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ (असाधारण मदों के उपरांत)	1,274.56	1,764.33	1,096.77	4,507.59	3,580.49
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि के लिए सम्मिलित लाभ (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत)]	1,341.81	1,748.16	1,194.80	4,486.40	3,678.92
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92
7.	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक ₹ 10 के) (आगे जारी रहने वाले एवं बंद हो चुके प्रचालनों के लिए) (₹ में)					
	मूल	6.45	8.93	5.55	22.82	18.13
	डायल्यूटिड	6.45	8.93	5.55	22.82	18.13

टिप्पणी:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित रोडमैप के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 से भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड-एएस) को अपनाया है और तदनुसार, पारगमन (ट्रांज़िशन) तिथि 01 अप्रैल, 2017 है। वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके तहत जारी संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के स्वीकार्य एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। पारगमन के प्रभाव की गणना भारतीय लेखाकरण मानक 101 'भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बार अंगीकरण' की अपेक्षाओं के अनुरूप 01 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक आरंभित में की गयी है।

इन वित्तीय परिणामों को भारतीय लेखाकरण मानक के आधार पर तैयार किया गया है, जो 31 दिसंबर, 2018 के अनुसार कंपनी पर लागू हैं। तदनुसारी आंकड़ों को चालू अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप पुनःसमूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कोई ऐलिकेशन/मार्गदर्शन/दिशानिर्देश या अन्य नियामकों को, उनके जारी किए जाने पर, अपनाया/लागू किया जाएगा।

2. भारतीय लेखाकरण मानक 101 'भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बार अंगीकरण' के पैरा 32 की अपेक्षाओं के संदर्भ में, पिछले जीएएपी और इंड-एएस के तहत 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए निवल लाभ का मिलान (रिकंसिलिएशन) निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	तिमाही 3 वित्त वर्ष 18	नौमाही वित्त वर्ष 18
क	अवधि के लिए पिछले जीएएपी के तहत रिपोर्ट किया गया निवल लाभ	1,296.41	3,812.21
ख	जोड़ें/(घटाएँ) - इंड-एएस समायोजन		
(i)	प्रत्याशित क्रेडिट क्षति के कारण समायोजन	110.67	(236.58)
(ii)	व्युत्पन्नों के लिए एमटीएम लेखाकरण के कारण समायोजन	(456.39)	(426.02)
(iii)	वित्तीय देनदारियों और वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रभावी ब्याज दर के कारण समायोजन	(22.98)	(47.51)
(iv)	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	19.61
(v)	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के जरिए परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः मापन लाभ/ (क्षतियाँ)	-	4.02
(vi)	अन्य विविध समायोजन	(0.06)	0.59
(vii)	कर प्रभाव	169.12	454.17
ग	इंड-एएस के अनुसार कर पश्चात लाभ (क+ख)	1,096.77	3,580.49
घ	अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	98.03	98.43
च	इंड-एएस के अनुसार कुल व्यापक आय (कर का निवल) (ग+घ)	1,194.80	3,678.92

3. उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को फाइल किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों

का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com and www.nse-india.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते आरईसी लिमिटेड

डॉ. पी. वी. रमेश, आईएएस

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सीआईएन-02836069

स्थान : मुंबई

दिनांक : 8 फरवरी, 2019

★ फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी ★ गोल्डन पीकॉक अवार्ड ★ एनएसई मार्केट अदीवर अवार्ड ★ सीआईएमएसएमई अवार्ड

आरईसी लिमिटेड

(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
(भारत सरकार का एक उद्यम)

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन: 011-43091500,
सीआईएन: L40101DL1969G0I005095

www.recindia.com

Follow us on:

f t y in